

आईटीआई से सीखें युवा और दूसरों के लिए दें प्रेरणा

भास्कर संवाददाता | विदिशा

इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आईटीआई परिसर में गुरुवार को रोजगार की पढ़ाई, चलें आईटीआई अभियान का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं कौशल्य योजना के तहत आयोजित किया गया था। राज्यमंत्री सूर्यप्रकाश मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। युवा खुद आईटीआई में आकर देखें कि हम अपने छोटे-छोटे रोजगार के लिए तकनीकी मार्गदर्शन



आईटीआई अभियान का शुभारंभ आईटीआई कालेज में हुआ।

कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध

कराए जाएं। विधायक कल्याणसिंह ठाकुर ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों की ट्रेनिंग एक ही जगह बहुत ही

कम मिल पाती है। खुद का कौशल उन्नयन के साथ-साथ दूसरों के लिए प्रेरणा बनें।

आईटीआई से मिलता है हुनर

कलेक्टर अनिल सुचारी ने कहा कि विकास के लिए हुनरमंद होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आईटीआई को जाने और समझें। रोजगार का अवसर और हुनर के विकास में आईटीआई के महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे बच्चों जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनका आईटीआई के माध्यम से कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देना है।

4 चरणों में चलेगा अभियान

आईटीआई में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कैंप में 11 से 26 मई के बीच आयोजित होगा। दूसरे चरण में शिविरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं का प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तीसरे चरण में स्कूलों में पढ़ रहे और ड्राप आउट छात्र-छात्राओं का जिला स्तरीय आईटीआई में भ्रमण कराया जाएगा। ये काम एक जून से 15 जून के बीच होगा। आईटीआई अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन 15 से 30 जून तक किया जाएगा।